


कार्यालय नगरपरिषद अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

E-mail- cmoamarpatan@mpurban.gov.in

पता- वार्ड क्र. 14 रामनगर रोड



क्र./नप/लेखा/2020-21/1882

अमरपाटन दिनांक 15/12/2020

प्रति

संभागीय संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास
रीवा संभाग रीवा

विषय:- नगरीय निकायों की सी.ए. आडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-20 प्रेषित करने के संबंध में ।

संदर्भ:- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल का पत्र क्र./ आडिट बजट/शाखा- 4(क)
/18863 भोपाल दिनांक 01.12.2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में नगर परिषद अमरपाटन की वर्ष 2019-20 की सी.ए. आडिट रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान जी की ओर सादर संप्रेषित है।

संलग्न:- सी.ए. आडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-20


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरपाटन
जिला सतना (म.प्र.)
अमरपाटन दिनांक 15/12/2020

पृ.क्र./नप/लेखा/2020-21/1882

प्रतिलिपि:-

1. वित्त अधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद अमरपाटन
जिला सतना (म.प्र.)



अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक

नगर परिषद
अमरपाटन, सतना (म.प्र.)

मेसर्स

प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

5-6 हाउसिंग बोर्ड शॉप, सेमरिया चौक
सतना (म.प्र.)

ईमेल: premsanjaycasatna@gmail.com

फोन नः 07672-223166 MOBILE : 98274-06561

अंकेक्षक की रिपोर्ट

प्रति,
सी.एम.ओ.
नगर परिषद, अमरपाटन,
सतना (म0प्र0)

हमने नगर परिषद, अमरपाटन, सतना (म0प्र0) की 31/03/2020 की तारीख को समाप्त अवधि के लिये प्राप्त एवं भुगतान खाता का परीक्षण जो कि हमारे द्वारा किया गया है। ये वित्तीय विवरण नगर परिषद की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, अपने अंकेक्षण कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत प्रस्तुत करना है।

हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के आधार पर किया है। इन मानकों के अन्तर्गत यह अपेक्षा कि जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना को इस प्रकार बनाये और उसे इस प्रकार निष्पादित करें, जिससे हम समूचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाये कि वित्तीय विवरण हर तरह से निर्धारित रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किया गया है, इसमें विषय वस्तु संबंधित कोई दोषपूर्ण विवरण नहीं दिये गये हैं, लेखा परीक्षा में राशि के समर्थन और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण संबंधी साक्ष्यों का नमूना परीक्षण आधार पर जांच सम्मिलित है, लेखा परीक्षा के अन्तर्गत प्रबन्धन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण कि प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है, हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिये एक समूचित आधार प्रदान करता है और हम अपनी टिप्पणीया प्रतिवेदन "अ" में संलग्न करते हुए रिपोर्ट करते हैं :-

उपरोक्त संदर्भित प्रतिवेदन में की गई टिप्पणीयों के अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

1. हमारे द्वारा वे सभी सूचना एवं स्पष्टिकरण प्राप्त कर लिये गये हैं, जो कि हमारे अंकेक्षण के उद्देश्य से हमारे बेहतर ज्ञान एवं भरोसे के लिए आवश्यक है।
2. जैसा कि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है, हमारी यह राय है कि परिषद् द्वारा वे सभी उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं जो कि विधि द्वारा अनिवार्य थी।



3. अपनी लेखा परीक्षा तथा हमें प्रदान कि गई सूचना एवं स्पष्टिकरण के आधार पर हमारा विचार है कि संलग्न वित्तीय विवरण संलग्नक "अ" के साथ पढ़ते हुए सही एवं सटीक चित्रण प्रस्तुत करता है:-

a. इस समय समाप्त वर्ष के लिये समेकित प्राप्ति एवं भुगतान खाते के प्राप्ति एवं भुगतान के संबंध में।

दिनांक:- 05.10.2020

स्थान:- सतना

वास्ते,

प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार



सी०ए० सुशील निगम

साझेदार

सदस्यता क्रमांक- 415011

UDIN:20415011AAAAMN9444

Audit Report

नगर परिषद, अमरपाटन, सतना (म०प्र०)

"ANNEXURE-A" TO THE STATUTORY AUDIT REPORT OF EVEN DATE
(31 मार्च 2020 को समाप्ति वर्ष के लिए)

1. गत वर्षों से सम्बन्धित अंकेक्षण प्रतिवेदन/पालन प्रतिवेदन (यदि कोई है) अंकेक्षण के दौरान हमें नहीं दिखाया गया।

2. Audit of Revenue:-

- आडिट के दौरान हमने पाया कि सभी रेवेन्यू (राजस्व) आगम विधिवत् पुस्तकों में लिखे गए हैं।
- हमारे द्वारा सभी राजस्व आय का अंकेक्षण किया गया जो कि समय से बैंक में जमा कर दिए गए हैं।
- बैंक में जमा करने में कोई देरी नहीं हुई है।
- अंकेक्षण दौरान हमने पाया कि नगर परिषद कि करें कि वसूली अत्याधिक रूप से बकाया है जिसकी जल्द से जल्द वसूली की जानी चाहिए। बकाया करें से सम्बन्धित जानकारी निम्नवत है (Refer Annexure: 01)

3. Audit of Expenditure:-

- हमारे द्वारा सभी खर्चों का स्कीम के अनुसार व्यय देख लिया गया।
- कैशबुक की सभी प्रविष्टियों को सम्बन्धित बाउचर के साथ चेक कर लिया गया है।
- कैशबुक का माहवार बैलेंसिंग पूर्णरूप से सही है और जरूरत के अनुसार एकाउन्टेन्ट को भूलसुधार के बारे में बता कर प्रविष्टि करा दी गयी है।
- हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सभी खर्च स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा में किए गए हैं कि नहीं इसके सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज (Budget) उपलब्ध नहीं कराया गया है।
- हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सभी खर्च भारत सरकार/सी.एम.ओ. की गाइड लाइन के अनुसार ही किए गए हैं।
- अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि कुछ बहुत पुराने खर्चों का भुगतान किया गया है जिनके संबंध में हमें देरी के कारण नहीं बताये गये हैं जिनसे सम्बन्धित जानकारी निम्नवत है।
- हमारे द्वारा अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सारे खर्च सक्षम अधिकारी एवं स्वीकृत अधिकारी के सीमा के अनुरूप ही किया गया है।
- सभी खर्चों के बाउचर पर पेड एण्ड कैंसिल(Paid & cancel)की सील नहीं लगी है। जानकारी निम्नवत है:-

4. Audit of Book keeping:-

- हमारे समक्ष प्रस्तुत सभी रिकार्ड देख लिए गए हैं।
- हमारे समक्ष स्टॉक पंजी प्रस्तुत की गई है परन्तु यह पंजी लेखांकन नियम के तहत नहीं बनी है जो कि Urban Local Bodies द्वारा सामान्यतया बनायी जाती है। जिससे कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया है।
- बैंक खातों के बैलेंस का Reconciliation प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- अंकेक्षण के दौरान हमें स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर दिखाया गया है परन्तु हमने यह पाया कि स्थायी सम्पत्ति का भौतिक सत्यापन भी जो कि वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए, नहीं किया गया है।
- अंकेक्षण के दौरान हमें डेड स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर नहीं दिखाया गया है और ना ही उसके बिक्री इत्यादि (sale etc) के कोई प्रलेख दिखाए गए।
- अंकेक्षण के दौरान हमें Waste/Scrap रजिस्टर नहीं दिखाया गया।

5. Audit of FDR:-

- हमें स्थायी जमा (FDR) रजिस्टर दिखाया गया पर अपडेट नहीं है।
- हमारे समक्ष जो एफ.डी.आर. भौतिक सत्यापन के लिये उपलब्ध करायी गयी है उनसे सम्बंधित जानकारी निम्नवत है- (Annexure: 02)
- परिषद द्वारा स्थायी जमा (FDR) रजिस्टर दिखाया गया पर अपडेट नहीं था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पूर्व में कितनी FD परिषद के द्वारा करायी गयी है। और वर्ष के दौरान यदि कोई एफ.डी.आर. परिपक्व (Mature) हुई है तो उस पर प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि को सत्यापित किया जा सके।

6. Audit of Tenders/Bids:- हमारे द्वारा टेण्डर एवं बिड का अवलोकन किया गया है, जिसमें निम्न कमियां ज्ञात हुई हैं:-

- अंकेक्षण के दौरान हमें टेण्डर रजिस्टर नहीं दिखाया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि वर्ष में दौरान कितने टेण्डर किए गये और साथ ही वर्ष के दौरान कितने कार्य पूर्ण किये गये हैं उसे सत्यापित किया जा सके।
- टेण्डर में प्राप्त एवं लौटायी गयी अमानत राशियों का एक प्रथक रजिस्टर बनाया जाना अनिवार्य है।

7. Audit of Grants/Loans:-

- ग्रांट जो भी केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त हुई है उसके सम्बन्ध में कोई आवंटन पत्र नहीं दिखाया गया।

- ii. हमारे द्वारा सभी ग्रांट जो भी केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त हुई है वो सब बैंक स्टेटमेन्ट से चेक किया गया है

8. Other Observation:-

- i. नगर पालिका परिषद के द्वारा कोई भी प्रोजेक्शन 31 मार्च में भुगतान योग्य व्ययों के लिए नहीं बनाया गया है, जैसे :- बिजली बिल कर्मचारी वेतन इत्यादि।
- ii. अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि अलग-अलग परिषदों द्वारा आय और व्यय के एक ही स्वभाव(Nature)के बावजूद अलग-अलग लेखा शीर्षकों (A/C Haed) में बुक किया है अतः ऐसी स्थिति में उच्च प्रबन्धन द्वारा आय एवं व्यय शीर्षकों की कोडिंग की जानी चाहिए जिससे खाता शीर्षक के चयन में एकरूपता(Uniformity) बनी रहे।
- iii. अंकेक्षण के दौरान हमने पाया कि सामान्यतया नगर परिषदों में पायी जाने वाली सम्पत्तियाँ (जो कि Physically उपलब्ध हैं) नगर परिषदों की बुक में दर्ज नहीं हैं। प्रबन्धन द्वारा ऐसी सभी स्थायी सम्पत्तियों को चिन्हित कर अपनी बुक्स में इनका लिया जाना अनिवार्य किया जाए जिससे इन पर भौतिक नियन्त्रण हो सके।
- iv. वाहन लॉगबुक सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कारायी गया।
- v. केवल प्राप्ति भुगतान खाता ही प्रबन्धन द्वारा पूर्व वर्ष से बनाया जा रहा है Balance Sheet का बनना सुनिश्चित किया जाना परिषद के हित में है।
- vi. अंकेक्षण के दौरान हमने कुछ ठेकेदारों के भुगतान की फाइलों की जांच कि जिसमें कई कमियाँ ज्ञात हुई विवरण नीचे दिया गया है:-
- (1) गुणवक्ता रिपोर्ट नहीं लगी है।
 - (2) लेबर रिपोर्ट नहीं लगी है।
 - (3) कार्य पूर्ण करने की फोटो नहीं लगी है।
 - (4) कार्य प्रारम्भ करने और कार्य पूर्ण करने की जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
 - (5) कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।(completion Certificate)

दिनांक:- 05.10.2020

स्थान:- सतना

वास्ते,

प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार



सी०ए० सुशील निगम
साझेदार

सदस्यता क्रमांक- 415011

UDIN: 20415011AAAAMN9444

Abstract Sheet for reporting on Audit Paras for Financial Year 2019-20

Name of ULB:- Nagar Parishad Amarpatan

Name of Auditor:- Prem chand & Co. Satna (M.P.)

Sr. No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
1	Audit of Expenditure	Detailed Audit of Revenue & Capital Expenditure	Expenses vouchers were not being properly approved by any competent authority, booking of expenses in the cash book must be in approved head.	Proper approved system must be implemented and expenses must be classified properly in capital and revenue.
2	Audit of Book Keeping	Audit of Book Keeping containing audit of Accounting System.	Cash system of accounting is being implemented. Books are maintained manually.	Book keeping in system by using any software will result in time saving and cost reduction as well, further if management want to continue the manual system some subsidiaries books must also be maintained like cheque issue register, tax/charges uncollected etc.
3	Audit of FDR	Detailed Audit of Interest	During audit of FDRs we observed that in case of renewal of FDRs interest received were not accounted properly.	It is suggested that FDRs accounting must be done accurately and FDRs receipts must be kept in very secure manner. Management has to properly review the FDRs renewal and must ensure the accounting of interest received.
4	Audit of Tenders/ Bids	Detailed Audit of Document related to tender	While verification of records we found that minimum three bidders must be applied whereas the bid has been final in two bidders only, further in envelope signature of all members of committee were not found.	In case of tender all the process mentioned in M.P Shandar kraya niyam/any other specified process must be followed properly and completely.



5	Audit of Grants & Loans	Detailed Audit of Fund given by Central & State Govt.	During the year grants received which is more than last year.	Utilization of grant received must be ensure the fulfillment of condition associated with the grant.
6	Incidences relating to diversion of funds from Capital receipts/ Grants/Loans to Revenue Nature Expenditure and from one scheme/project to another	Nil	No such cases found during period under audit.	

Sr. No.	Parameters	Description	Observation in Brief	Suggestions
7	Any Other a) Percentage of Revenue Expenditure (Establishment, Salary, Operation & Maintenance) with respect to Revenue Receipts (Tax and non tax) excluding Octrol, Entry Tax, Stamp Duty and other grants etc.			
	b) Percentage of Capital Expenditure with respect to Total Expenditure	16.94%		



Seal & Signature of Auditor

प्राप्ति भुगतान खाता
For The Period 01 April 2019 To 31 March 2020

प्राप्ति	रकम	रकम	भुगतान	रकम	रकम
पूर्व शेष	0.00		व्यय		
हस्तस्थ रोकड़	26,090,324.73	26,090,324.73	स्वा स्थाई सा०	2,077,170.00	
बैंक शेष			फायर वाहन अस्थाई	198,295.00	
आय			स्वा अस्थाई सा०	21,720,889.00	
स्टेण्ड पार्किंग	556,420.00		भाविष्य निधि	1,373,821.00	
आनलाईन जमा	850,774.00		परिभाषित पेन्शन	1,048,100.00	
बाजार बैठकी	222,798.00		वेतन एरियस	531,065.00	
सम्पत्तिकर	540,074.00		वाहन वीमा नवीनीकरण भुगतान	118,218.00	
जलकर	413,564.00		बैंक लोन एवं बीमा	36,000.00	
समेकित कर	315,712.00		व्रति कर	105,872.00	
नगरी विकास उपकर	183,973.00		अस्थाई वेतन	176,356.00	
शिक्षा उपकर	114,026.00		समिदा वेतन	78,000.00	
भवन अवेदन/अन्य आवेदन शुल्क	1,254.00		अस्थाई सा०	586,829.00	
भवन अनुज्ञा	4,750.00		पी०एफ	308,698.00	
अनुज्ञापति शुल्क	30,680.08		मानदेय भत्ता अध्याय पार्श्व	260,000.00	
दुकान किराया	2,965,905.08		टेलीफोन बिल भुक्तान	40,076.00	
अनपति प्रमाण पत्र	5,020.00		विद्युत मरम्मत कार्य	1,614,064.00	
नकल शुल्क	48.00		जल पंदाय सामग्री	2,504,906.00	
मंगल भवन किराया	18,900.00		जल पदाय मरम्मत सामग्री	798,913.00	
टैकर किराया	74,950.00		अन्य सामग्री भुक्तान	57,082.00	
नल कनेक्शन विछेद शुल्क	250.00		निर्वाचन कार्य	159,637.00	
नदीन नल कनेक्शन राशि	129,500.00		जे०सी०वी कार्य	526,389.00	
रोड कटिंग शुल्क	11,003.00		पाईप लाईन विस्तार जे०सी०वी	2,046,435.00	
सूचना का अधिकार/ प्रमाण पत्र/अनापति	816.00		स्वाच्छता कार्य	57,497.00	
नामान्तरण राशि	-		नल कूप खनन कार्य	642,302.00	
अमानत राशि	21,000.00		हैण्ड पंप सामग्री मरम्मत	361,303.00	
विविध अन्य	70,036.22		मैजिक वाहन मरम्मत	54,777.00	
दुकान प्रीमियम	9,209,670.00		टैकर/टैक्टर मरम्मत	260,060.00	
स्वच्छता निशान	1,049,000.00		मोटर पंप सामग्री मरम्मत	623,440.00	
दुकान नामान्तरण शुल्क	35,000.00		स्वाच्छता सामग्री	788,023.00	
पटाका दुकान क्रिया	1,600.00		सुलभ शौचलय व्यवस्था	65,000.00	
ब्याज राशि	800,457.00		प्रचार प्रसार	50,218.00	
यस जी यस टी	48,753.89		विद्युत बिल	6,270,807.00	
सी जी यस टी	48,507.57		डीजल व्यय	1,142,646.00	
पेनल्टी	25,163.32		आडिटर फीस	40,600.00	
जी यस टी राशि	46,480.62		लोकनिर्माण सामग्री	413,720.00	
मैला टैकर राशि	17,400.00		मुख्यमंत्री अधोसंरचना	1,511,480.00	
कर अधिभार	9,749.90		रोड मरम्मत	336,209.00	
आंगनवाड़ी	2,063,000.00		अमानत राशि	54,890.00	
अंकेक्षण अप्पति जलकर	415,563.00	20,301,798.68	हुडको किस्त	430,977.00	
गारान द्वारा अनुदान			कार्य०आक०	592,613.00	
14 या वित्त आयोग	13,286,000.00		पेयजल परिवहन	938,951.00	
यात्री कर	1,750,000.00		स्टेशनरी भुगतान	288,190.00	
राज्यवित्त आयोग	3,512,000.00		विधिक व्यय	74,000.00	
Cmtex dep लिंक रोड	3,432,000.00		विधिक	12,000.00	
मुख्यमंत्री जन कल्याण सम्बल योजना	800,000.00		विधिक	80,950.00	
घुंगी क्षतिपूर्ति	23,048,418.00		बैंक चार्ज	2,751.43	
सड़क मरम्मत मद	1,189,000.00		आई टी कटौती	261,405.00	
मूलभूत सुविधा	4,569,000.00		आई टी कटौती कर्मचारी	23,000.00	
मुद्रांक शुल्क	1,161,000.00		आयकर कटौती	130,262.00	
			जी०एस०टी	422,972.00	
			एस०डी० रिटर्न	24,642.00	



3,244,800.02	55,992,218.02	मुख्यमंत्री जनकल्याण (संभल योजना)	2,000,000.00	
		निविदा सूचना प्रकाशन	74,473.00	
		स्वतंत्रता दिवस व्यवस्था व्यय	43,300.00	
		अपील प्रकाशन	9,000.00	
		समाचार पत्र / पत्रिका	132,727.00	
		फायर ब्रिगेड समग्री	20,100.00	
		अलाव व्यवस्था	183,311.00	
		दुकान मरम्मत कार्य	33,853.00	
		यात्रा भत्ता	2,125.00	
		स्काई लिफ्ट भुगतान	84,376.00	
		मृत्यु अनुग्रह राशि	5,000.00	
		टी०डी०एस जीएसटी	115,624.00	
		गणतंत्र दिवस व्यवस्था	34,100.00	
		जीप किराया	139,905.00	
		रिटर्न दाखिल ववत भुगतान	14,800.00	
		अर्जित अवकास	308,252.00	
		वाल पेंटिंग	26,138.00	
		सफाई कर्मी	662,854.00	
		जी एसटी रिटर्न	28,650.00	
		पौस्तक कार्य	142,783.00	56,383,871.43
		पूँजीगत व्यय:-		
		रोड निर्माण	4,025,645.00	
		रोड निर्माण/पुलिया	95,766.00	
		नाली निर्माण	2,401,989.00	
		शौचालय निर्माण	329,000.00	
		प्रधानमंत्री आवास	4,650,000.00	11,502,400.00
		अंतिम शेष		
		हस्तस्थ रोकड़	0.00	
		बैंक शेष	34,498,070.00	34,498,070.00
योग	102,384,341.43	योग		102,384,341.43

Note

As Per "ANNEXURE-A"

As per our report of even date attached

स्थान:- सतना

दिनांक:- 05.10.2020



वास्ते,
प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी
असदी लेखाकार

सी० ए० सुशील निगम
साझेदार

सदस्यता क्रमांक- 415011

UDIN: 20415011AAAAMN9444

NAGAR PARISHAD AMARPATAN
BANK ACCOUNT DETAILS

<u>S/NO</u>	<u>BANK NAME</u>	<u>ACCOUNT NO</u>	<u>BALANCE AS ON</u> <u>31/03/2020</u>
1	Allahabad Bank	20313422431	568470.00
2	Allahabad Bank	20313451508	231874.00
3	Allahabad Bank	20313471375	1796142.00
4	Allahabad Bank	50372003142	6793.60
5	Allahabad Bank	20313445812	3813390.00
6	Union bank of india	636901010050155	7126032.62
7	Union bank of india	636902010000615	319724.37
8	Union bank of india	63902010004982	1697819.32
9	Union bank of india	6369020100009050	2742881.43
10	SBI	30098902014	555344.00
11	SBI	34826297376	20676.50
12	SBI	63046436659	889539.00
13	SBI	53052169430	11835542.17
14	SBI	31472492197	35045.00
15	SBI	30314298815	162655.00
16	SBI	38997792817	2535143.29
17	Central bank of india	3027879898	245780.00
18	ICICI BANK	413101000160.00	1056645.00
	<u>(A) Balance as per Pass Book</u>		35639497.30
	<u>(B) Balance as per Cash Book</u>		34,498,070.00
	Difference (A-B)		1141427.30

Note

As Per "ANNEXURE-A"

As per our report of even date attached

स्थान:- सतना

दिनांक:- 05.10.2020



वास्ते,

प्रेमचन्द एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

सी० ए० सुशील निगम

साझेदार

सदस्यता कमांक- 415011

Abstract Sheet for Reorting on Audit paras for Financial Year 2019-2020

Name of ULB: AMARPATAN

Name of Auditor: Prem chand & Co.

S/NO	PARTICUALR	YEAR 2018-19	YEAR 2019-20	GROWTH	Observation in Brief	Suggestion
	Audit of Revenue					
1	Property Tax	455878.00	540074.00	18.00%	During the year income increased by (84196)	Management has to review the sampati tax and collection must be ascertained. Revision of sampati kar is one of action that can increase the revenue.
2	Samaykit Kar	430594.00	315712.00	26.68%	During the year income decreased by (114882)	Management has to review the samaykit tax and collection must be ascertained. Revision of samaykit kar is one of action that can increase the revenue.
3	Urban Development tax	149532.00	183973.00	23.00%	During the year income increased by (34441)	
4	Education Cess	77541.00	114026.00	47.00%	During the year income increased by (36485)	This tax and Fees should be properly collected in month wise and timely deposited in bank, so can remove the irregularities
	Sub Total	1113545.00	1153785.00			
	Non tax Revenue					
5	Rent	495113.00	335648.00	32%	During the year income decreased by (159465)	Management has to review the Rent and collection must be ascertained. Revision of rent is one of action that can increase the revenue.
6	Water	281973.00	413564.00	47%	During the year income increased by (131591)	
	Sub Total	777086.00	749212.00			
	Grant Total	1890631.00	1902997.00			



Seal & Signature of Auditor

AUDITORS

M/S. PREM CHAND & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

**5-6, Housing Board shops, Semaria Chowk,
Satna (Madhya Pradesh)**

Email: premsanjaycasatna@gmail.com

PHONE : 07672-223166 MOBILE : 98274-06561